



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 श्रावण 1934 (श0)  
(सं0 पटना 384) पटना, बुधवार, 8 अगस्त 2012

सं0 वि0(27) पे0को0(विविध)-48 / 2011-1155 / वि0  
वित्त विभाग

संकल्प

8 अगस्त 2012

विषय:—दिनांक 1 जनवरी, 2006 के पूर्व राज्य सरकार के पेंशनधारियों के पेंशन समेकन/पुनरीक्षण की स्वीकृति से संबंधित संकल्प संख्या 820, दिनांक 23.09.2009 की कड़िका-2 (V) में संशोधन के संबंध में ।  
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन संख्या 38/37/08-P&PW(A) पार्ट-I दिनांक 03.10.2008 द्वारा अपने ही ज्ञापन संख्या 38/37/08-P&PW(A) दिनांक 01.09.2008 की कड़िका 4.2 में किये गये संशोधन के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा वित्त विभागीय संकल्प संख्या 820, दिनांक 23.09.2009 की कड़िका-2 (V) में निम्न रूप से संशोधन करने का निर्णय लिया गया है:—

1	2
वित्त विभागीय संकल्प संख्या-820 दिनांक 23.09.2009 की कड़िका-2 (V) का प्रावधान ।	संशोधित प्रावधान ।
“पुनरीक्षित पेंशन की राशि सेवा निवृत्ति के समय पेंशनधारी को प्राप्त वेतनमान की पुनरीक्षित वेतन बैंड के प्रारंभिक वेतन तथा ग्रेड पे के योग में 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी । इसी प्रकार पुनरीक्षित पारिवारिक पेंशन की राशि मृत सरकारी सेवक/ पेंशनधारी को प्राप्त अंतिम वेतनमान के पुनरीक्षित वेतन बैंड के प्रारंभिक वेतन तथा ग्रेड पे के योग में 30 प्रतिशत से कम नहीं होगी ।”	“पुनरीक्षित पेंशन की राशि सेवा निवृत्ति के समय पेंशनधारी को प्राप्त वेतनमान की पुनरीक्षित वेतन बैंड के प्रारंभिक वेतन तथा ग्रेड पे के योग में 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी । इसी प्रकार पुनरीक्षित पारिवारिक पेंशन की राशि मृत सरकारी सेवक/ पेंशनधारी को प्राप्त अंतिम वेतनमान के पुनरीक्षित वेतन बैंड के प्रारंभिक वेतन तथा ग्रेड पे के योग से 30 प्रतिशत से कम नहीं होगी । परन्तु पूर्ण पेंशन के लिए अधिकतम अपेक्षित सेवा ( 33 वर्ष ) से कम होने की अवस्था में पेंशन अनुपातिक रूप से कम कर परिगणित की जायेगी ।”

2. जहाँ तक इस आदेश को पटना उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/ विधान परिषद् से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के प्रसंग में लागू करने का प्रश्न है, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पटना, अध्यक्ष, बिहार विधान सभा एवं सभापति, बिहार विधान परिषद् के आदेश से निर्गत किया जायेगा ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाए ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
आर० के० खंडेलवाल,  
सचिव (संसाधन)।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 384-571+1500-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>